

नागराज और तूफान-जू

राज
कॉमिक्स
मूल्य 15.00 संख्या 295

नया घमाकेदार कॉमिक्स

मुफ्त
नागराज का एक पोस्टर





नागराज और तूफान-जू



लेखक: संजय गुप्ता व तरुण कुमार वाही
संपादक: मनीष चंद्र गुप्त चित्र: मुळीक स्टूडिओ

आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडांगा का समाप्त कर उड़ा चला जा रहा था चीन की तरफ —



चीन का लॉप गैंगस्टर कोया-कोया हितेची जिसने चीन के बड़े-बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है। अब मुझे उसका खात्मा करना है।



राजधानी पेईचिंग में।



कोया-कोया, के लिए क्या सा है?

फान! समय आ गया है, तुम्हें तूफान बनकर लीफेंग का अप-हरण करना है।



आप समाप्त काम हो गया, गेट कोया-कोया!

यह काम तुम्हें कल्प तक पूरा करना अब मुझे चलाते हैं।

कोया-कोया की आकृति धीरे-धीरे गायब हो गई।

क शरीर में बिजली भर गई।

काम है। मुझे लीफेंग को बंदना भी होगा।



और —

पावर बेल्ट पहनकर...



... वह बन गया तूफान।

CENTRAL EXTERNAL LIAISON DEPARTMENT (C.E.L.D.)

कमाण्डो वान ! तुम सेक्टर एक्सटर्नल लिजन डिपार्टमेंट * के नम्बर वन जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद जरूरी आपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है।



* चाइना की सीक्रेट सर्विस।

कहिए सर, मुझे क्या करना है ?

तुम्हें प्रधानमंत्री जी के अपहरण रोकना है, जिसमें तुफान निकल चुका है।



विस्फोट हुआ था वान के कानों में — प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण! पगला तो नहीं हो गया कोया - कोया गिरोह!

कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है।



मेरी जान जाएगी सर तो प्रधानमंत्री जी का अपहरण नहीं कर पाएंगे। यह एजेंट कमाण्डो वान का है।

और वान अपने मिशन पर निकल पड़ा —

टकला मकान डेजर्ट 320000 वर्ग कि.मी. में फैले मर्यादक रेगिस्तान में बना C.E.L.D. का अभेद्य किला —

प्रधानमंत्री जी! आप बेफिक्र रहें, वान के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

किन तूफान



किन्तु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलना था।



किले-पर तैनात गार्ड्स की नजरें तूफान पर पड़ीं।



मूर्ख जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां अस्तर नहीं करतीं।



स्वूस्वार घटावों की आवाजें वान के कानों तक भी पहुंचीं—

लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है।

तूफान! अब मैं गया।



वान ने अपनी स्पेशल वान संभाली और—



दोनों का जबरदस्त सामना हुआ—



वान ने संभलते ही तूफान पर फायर किया—

कमांडो वान ! मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी स्वामी हाथ नहीं लौटा।

नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ।

और—

यह स्पेशल वान सिर्फ तेरे के लिए बन तूफान

कहते ही वान ने अपनी स्पेशल वान झपट कर उठा ली।

तूफान ने भी वार किया—

त्रेजर वान तो तुम्हें मिल गई, किन्तु स्वात्मा तो तब होगा ना जब वान रहेगी।

उसने एक हैंडब्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया...

अगले ही क्षण—

किन्तु—

उफ! इसका शरीर इतना तप के रहा है ?




... किन्तु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ।

वान चाहकर भी उसके सत हो पाया।

और -



राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान -



पहुंच गया प्रधानमंत्री लीफेंग के सामने -



और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया।

तुंगातिंग झील के अन्दर बने कोरा कोरा हिनेची के अड्डे पर -



तूफान का लहू खौल उठा।

हमें असली लीफेंग चाहिए तूफान!



बेटे वान आफ चाइना के अंदर कहीं CELD का एक गुप्त आफिस।



कमांडो वान बाहर आया, किन्तु यह क्या ?



अभी तो केवल एक हाथ ही बाया है, देश सेवा में अगर शरीर के हजार टुकड़े भी हो जायें तो वान पीछे नहीं हटेगा।

लेकिन तभी—



वान!
तेरी मौत आ गई जो तुने तूफान को धोखा दिया।०००

अकस्मदी इसी में थी कि भाग निकला जाए —



०० अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती।

तूफान ने हमला किया —



और वान को जकड़ लिया जिन्दा ना छोड़ने के लिए —



आह!
उफ!
आह ss

किन्तु तभी—



सर्पशक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान-जू

तुम नागराज! यहां चीन में!

हां, मैं नागराज, चीन में!

अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है।

उफ!

चीन के अपराधियों में तहलका मचा कर जाऊंगा मैं!

नागराज! तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है।

नागराज ने सर्प रस्सी छोड़ी -

मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेगे और फिर तुझे जेल होगी!

तभी तूफान का शरीर तपने लगा -

हा हा हा। कैद, जेल, तूफान को। हा हा हा

तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा -



और -

उफ! इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है।

हा हा हा नागराज! अब मेरी केंद से कैसे छूटोगे, बोलो?



तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था -

उफ! और पीड़ा नहीं का स...



तभी इस लड़ाई का मुकदशिक वान चीखा -

नागराज! इसकी बेल्ट उखाड़ दो। उसी में इसकी सारी ताकत है।



नागराज के क्षीण होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया -



और पूरी शक्ति बटोरकर नागराज

... बेल्ट को उखाड़ दिया -



और अब तूफान पड़ा था धरती पर...

... क्योंकि पावरबेल्ट के बिना...

... वह था केवल फान।



फान की रूह फना हो गई नागराज का घुंसा चस्ख के

आह!


क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का -



चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया-कोया हिलेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था -



इंघाई में एक गुप्त ठिकाने पर -



नागराज! तूफान और जू कोराकोरा के दो हाथ हैं। कोरा कोरा तो केवल आर्डर देता है। कार्यान्वित यह दोनों करते हैं।



और प्रधानमंत्री को कह रहा है...

शाऊलिन जेल में जिसके अंदर पांच सौ कैदियों की जगह अब पांच सौ चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उनकी सुरक्षा पर तैनात हैं।०००



००० और नागराज! कोराकोरा को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी वह जू को हमारी खोज में लगाएगा।०००



००० जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है। उसकी मास्क शक्ति असीमित है।०००



और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया।

००० मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे।

वान! नागराज को करो। मेरा पल-पल के बीच गुजर




और जू, उसे भी मैदान में आने दो। नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे।



उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोयासोया

बॉस! कोयाकोया के चरस के भरे चार ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं



लूट लो कोया कोया को। उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए।




उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए।



साथियों के भी इरादे बुलंद थे -

ऐसा ही होगा ग्रेट सोयासोया, लेकिन...



लेकिन क्या?

जू!



उहाका लबागा सोरासोरा ने —

जू! हा हा हा जहां
द्वयान पहुंच गया
जागराज के हाथों वही
जू भी पहुंच जाएगी।
हा हा हा



लेकिन —

तब सबकी आंखों में भय की परछाइयां दौड़ गईं —



जू!



सोरासोरा!
तूने अपने भाई ब्रेट
सर कोरा-कोरा को
बहुत नुकसान
पहुंचा लिया।०००



००० अब तक तो वह
चोरियां भाई समझकर
रहे, लेकिन अब पानी सि
अपर उठ चुका है। अ





अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है

वह भी आती होगी।



यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोरा सोरा ही था--

जु तूने मेरे स का खात्मा कर तुझे नहीं छो



उफ! यह इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी नहीं सोचा था।

गानराज! मुझे अपनी फुर्ती दो।



जु नहीं बचेगी तू।



रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो।

खडाक

आह!



अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े!

तत्पश्चात् —



नागराज!
मुझे अपनी
शक्ति दो।

और आखिर ट्रक भर ही गया —



बाज राजा,
मुझे उड़ने की
शक्ति दो।

मैडम जू
का काम पूरा
हुआ।

संगल में जू की डेन में —



गेट कोया कोया आज
बहुत खुश होंगे जू का मेजा
हुआ लाशों का ट्रक मिला
गया होगा।

जू! आज खुशी
का दिन हरगिज
नहीं है।

क्या बात है आज गेट
कोयाकोया परेशान नजर
आ रहे हैं।

हां जू, क्योंकि आज हमारा
एक बाजू कट गया। तूफान
मारा गया।

तूफान मारा गया! कब,
कैसे? किसने मारा
उसे?



विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने।

नागराज! यहां चीन में। मैं उसे निगल जाऊंगी बेटे कोया कोया। बदला।

बदला! नागराज में आ रही हूँ। तेरी मौत जू।



जू तुम्हें नागराज को दूढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम झाऊलिन जेल से प्रधानमंत्री लीफेंग का अपहरण कर लो। बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। लीफेंग को पकड़ना असि-आवश्यक है।

और जू निकल पड़ी लीफेंग का अपहरण करने के लिए।

नागराज! विश्व का सबसे ताकतवर मानव।



झाऊलिन जेल -



रेड एलर्ट

वू ऊ वऊ ऊ

जेल के ऊपर जू मंडरा रही है।



वेहद तगड़ा इंतजाम था वहां।

जू बेस्वीफ गोलियों की बरसात में नीचे उतरने लगी—



तूफान चमड़ी
वाले गोंडे! मुझे
अपनी शक्ति
दो।



जहरीले कंटों वाली
साही, मुझे अपनी
शक्ति दो।



आह!

हूए!

अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू पांच सौ
पैलियों के बीच तहलका मचाती बड़ी चली जा रही थी—



वानरराज! मुझे
अपनी फुर्ती दो।

गजराज!
मुझे अपनी
शक्ति दो।

किन्तु उसकी अगली किक किसी को हिलाना भी ना पाई क्योंकि -

जागराज तुम यहां ?

आओ जू! स्वागत है।



जू को आश्चर्य का भयानक झटका लगा।

और लगा नागराज का दांव -

अब जरा बताना, कैसा लगता है चोट खाकर।



धड़क



जू को पहली बार किसीने धूल चटाई है नागराज स्वाद अच्छा लगा।



फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो।



जंगली भैंसे, मुझे अपने सिर की मजबूती दो।

आह!

भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया।

तु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी -

जू! नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है।



दोनों ही एक-दूसरे की शक्ति आंक रहे थे -



रोह! यह सम्मोहित हो चला है।

खिलप्री रानी! मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो।

नागराज का जादू टूटा।



गजराज! मुझे अपनी शक्ति दो।

और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया -

यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्पशक्ति से बांधता हूँ।



मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला किया है।



लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लीफेंग को लेकर निकल जाना चाहिए। वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाएं।



तभी वातावरण पुरातिस सायरन की आवाज से गूँज उठा।



गजराज! अपनी शक्ति प्रदान करें।



और शक्ति दो।

र नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया -

मुझे जल्दी लीफेंग को बचा है।



कुछ ही क्षणों में -

गतिवान हिरण मुझे अपनी गति दे।



र वह प्रधानमंत्री लीफेंग को लेकर उड़ गई -

शक्तिमान रुड़! अपनी शक्ति दो।



जू के ओहसल होने के बाद -

दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया ?



ओह वाज! इतने यह पिलर उठवाओ, फिर बताता हूं।

अमी लो।



उफ! वाकई बेहद शक्तिशाली है जू।

लेकिन अब हम प्रधानमंत्रीजी को कैसे वापस ला पाएंगे ?



नागराज मुस्कुराया।



वान ! मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत से उनकी रक्षा करेंगे और...



...उनसे मानसिक सम्पर्क बनाकर मैं कोयाकोया हितेची के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोयाकोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी।...



...मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था। और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है।

नागराज! यू आर जीनियस!



और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर

ओह! श्योर! अभी इंतजाम हो जाएगा।



कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे—

वान ! मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं।



संदेश तो लगता है, कहीं पास से ही आ रहे हैं। आसमान से ही.. अरे यह क्या ?

क्या देखा नागराज ने ?



इधर नागराज को दिरवा था एकं बेलून -



वान! वे जरूर इस बेलून के अंदर हैं। इसी में है कोराकोरा का हेडक्वार्टर।

इस बेलून में! यह तो एक बहुत बड़ी कम्पनी के विज्ञापन का बेलून है नागराज! तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है।




इसमें जरूर कुछ भेद है।



तभी-

अरे, वह देखो वजन, वह दरवाजा खुल रहा है।



पौर-

हेलीकॉप्टर बेल्चून में समा गया।



कोयाकोया के सामने-

WELCOME NAGRAJ
WELCOME IN KOYA KOYA'S
EMPIRE

नागराज
यहां पहुंच ही
गया।

तो यह
है दुष्ट
कोया कोया!

तभी नागामंद व नागाराज वीफिंग की जेब से निकलकर नागराज की कंधियों में समा गए।



नागराज! तुमने तूफान की हत्या करके कोयाकोया को बहुत बड़ा कुकस्मान पहुंचाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी जू के हाथों मौत।०००



००० और हम सब यह तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नम्बर देंगे।

थैंक्स ग्रेट कोयाकोया! मैं इसका मारने के लिए बेताब हूँ।



नागराज! मुझे फुर्ती दो।



शाबास जू! दस नम्बर!

किन्तु नागराज तुरन्त ही संभल गया -



बीस नम्बर नागराज!

फिर तो कोराकोरा को सभी नखर नागराज को ही देने पड़े -



उफ!



जू! कुछ करो तुम हार रही हो। भूल्य गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है।

जू खड़ी हुई -



जंगल के समस्त प्राणी मुझे स्फूर्ति प्रदान करें।



मुझे ताकत प्रदान करें।



यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दो।

नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी -



जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी -



साक्षात् मौत बनी वह नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी -



और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया -



लेकिन खुद जू भी वह टक्कर ना सह पाई -



००० उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ा था जू ने -



नागराज!
मुझे अपनी शक्ति
दो।

हांए!

जड़ रह गया नागराज -




मुझे
अपनी शक्ति दो
नागराज!



यह क्या
कर रही
हैं? ०००



जू को तुम्हारी
सभी शक्तियां
चाहिए।



उफ! मैं नर्वस क्यों हो रहा हूं।
मुझे कुछ हो रहा है!



GIVE UP

NO!

यह नागराज को क्या हो रहा
है। अगर ००० अगर जू ने वाकई
नागराज की शक्तियां ले लीं।
तो। नहीं ०००

??

नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि ०००

वान तेजी से दौड़ा -

नागराज! होश में आओ नागराज! तुम सर्वशक्ति-मान हो।



तभी कोराकोरा का हाथ हस्त में आया -



धंय धंय धंय

गोलियों से छलनी हो गया जांबाज CELD एजेंट।

किन्तु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने -

NAGRAJ YOU ARE NEEDED!

नहींsss

वान!



नागराज! मुझे सुझी है कि मैं तुम्हारी बांहों में दम तोड़ रहा हूं। I LOVE CHINA

वान! तेरे हत्यारों को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं सच।



अब नागराज को कौन रोक सकता था -

हत्यासिन् चुड़ैल।



जू की मौत अब निश्चित थी -

नागराज के मुंह से भयंकर विष फुंफकार निकली -



जू का भी हश्र वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया है। मौत

नागराज और तूफान-जू

नागराज! अब खेल खत्म आ! तुम जहां हो वहीं रुक जाओ! और जैसे-जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं लीफेंग को शूट कर दूंगा।

नहीं, ऐसा मत करना! बोलो मुझे क्या करना है?



मुझे पता है नागराज! अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा, इसलिए फिल्महाल तो तुमसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया है।



क जगह पहुंचकर वह ठिठक गया।



OPEN THE EMERGENCY DOOR!

खेलून के फर्श में एक दरवाजा बन गया -



JUMP NAGRAG! कूदो-कूद जाओ!



नागराज कूदा, किन्तु अकेला नहीं दोनों के साथ! नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा!



कुछ ही क्षणों में नागानंद, नागनाथ व सर्प सेना ने अद्भुत पैराड्रॉट बनाना शुरू कर दिया -



नागानंद व नागनाथ 'स्कूनी जंगल' में भी दिखा चुके हैं यह कारनामा।

बड़ा भयानक क्षण था वह जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया -



नागराज! बहुत बुरा अंत हुआ कोराकोरा का।

अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है।



फिर कोरा कोरा हिलेची के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया-



और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ -




में नागराज को 'ग्रेट मैजिस्ट्रेशन ऑफ चाइना एवार्ड' से सम्मानित करता हूँ।

I LOVE NAGRAJ

I LOVE NAGRAJ

और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली -



प्रिय मित्रों! 'काबूकी का खजाना' के लिए आपके बहुत से पत्र प्राप्त हुए। धन्यवाद, मैं आपके सुझावों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। 'माल मोत' में YBAK वाकई भ्रारा गया था, अपनी यह भूल मुझे कुबूल है। नागराज की अगली चित्रकथा का नाम है - 'नागराज और नगीना का जाल', आपके पत्रों के इंतजार में, आपका प्रिय मित्र :- अजय गुप्ता.
.. 1603, दरीबा कलां, दिल्ली-110006